

इसे वेबसाईट [www.govt\\_pressmp.nic.in](http://www.govt_pressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 306]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 27 जुलाई 2015—श्रावण 5, शक 1937

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)—462011

शुद्धि-पत्र

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2015

अधिसूचना क्रमांक एफ-65-02-2015-तीन-नपा-575.—मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक एफ-65-02-2015-तीन-नपा-267, दिनांक 6 फरवरी 2015 नगरपालिक निगम इन्दौर जिला इन्दौर के माह जनवरी, 2015 में कराये गये आम निर्वाचन के निर्वाचित पार्षदों की सूची जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 58, दिनांक 6 फरवरी 2015 में प्रकाशित की गई है, अधिसूचना में वार्ड क्रमांक 44 (चौवालीस) “रूपेश देवलिया” के स्थान पर “रूपनारायण देवलिया” पढ़ा जावे।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।